

# HWDSB

प्रिय परिवारों,

हैमिल्टन-वैटवर्थ डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (एचडब्लिऊडीएसबी-HWDSB) में, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्र हर दिन सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंचें।

अनुपस्थिति के लिए हमारी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए, हम **सेफअराईवल (SafeArrival)**, एक छात्र अनुपस्थिति रिपोर्टिंग प्रणाली की तैनाती करेंगे, जो आपके लिए अनुपस्थिति की रिपोर्ट करना बहुत आसान बना देगा। यह स्कूल के कर्मचारियों को सभी अस्पष्टीकृत अनुपस्थितियों के लिए जल्दी और अच्छी तरह से जवाब देने की भी अनुमति देगा। हमारा लक्ष्य है कि सभी अनुपस्थितियों के बारे में हमें बताया जाना जारी रहे और हम प्रत्येक दिन की सभी छात्रों की खबर रख सकें, यह जानते हुए कि वे सभी सुरक्षित हैं।

**सेफअराईवल (SafeArrival)** के साथ, परिवार तीन तरीकों में से एक में बच्चे की अनुपस्थिति की रिपोर्ट करते हैं:

1. सेफअराईवल वेबसाइट [go.schoolmessenger.ca](http://go.schoolmessenger.ca), का उपयोग करें। जब आप पहली बार वेबसाइट का उपयोग करते हैं, तो अपना अकाउंट बनाने के लिए **साइन अप** का चयन करें। **उपस्थिति (Attendance)** फिर एक **अनुपस्थिति की रिपोर्ट करें** का चयन करें।
2. अपने मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते हुए, ऐप्पल ऐप स्टोर (Apple App Store) या गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से (या [go.schoolmessenger.ca](http://go.schoolmessenger.ca) पर लिंकों से) **स्कूलमैसेंजर (SchoolMessenger)** ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। जब आप पहली बार ऐप का उपयोग करते हैं, तो अपना अकाउंट बनाने के लिए **साइन अप** का चयन करें। **उपस्थिति (Attendance)** फिर एक **अनुपस्थिति की रिपोर्ट करें** का चयन करें।
3. स्वचालित फोन प्रणाली का उपयोग करके अनुपस्थिति की रिपोर्ट करने के लिए 844-506-4350 पर टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें।

ये विकल्प सप्ताह में सात दिन 24 घंटे/दिन उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय भविष्य की अनुपस्थिति की रिपोर्ट कर सकते हैं।

इसके अलावा, हम उन अभिभावकों से संपर्क करने के लिए **स्कूलमैसेंजर कम्यूनीकेट (SchoolMessenger Communicate)** स्वचालित अधिसूचना प्रणाली का उपयोग करेंगे जिनके बच्चे के अनुपस्थित होने पर अग्रिम रिपोर्ट नहीं की गई थी। स्वचालित अधिसूचना प्रणाली माता-पिता से कई बार संपर्क करने का प्रयास करेगी जब तक कि माता-पिता अनुपस्थिति की पुष्टि नहीं करते और ब्यौरा नहीं देते। यदि यह प्रणाली निर्दिष्ट संपर्कों तक नहीं पहुंच सकती है, तो कार्यालय कर्मचारी फालो-अप करेंगे।

# HWDSB

यदि आप पहले से **सेफअराईवल** टोल-फ्री नंबर, वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपने बच्चे की अनुपस्थिति की रिपोर्ट करते हैं, तो आपको ये सूचनाएं प्राप्त नहीं होंगी।

**23 अप्रैल, 2019 से शुरू करके**, कृपया नोट्स भेजने या स्कूल को काल करने/ईमेल करने के बजाय सेफअराईवल का उपयोग करके पहले ही अनुपस्थिति की रिपोर्ट करें। इस तिथि से, कर्मचारी आपके छात्रों के अनुपस्थित होने पर आपको यह बताने के लिए सेफअराईवल अधिसूचनाओं का उपयोग करना शुरू कर देंगे (जब आपने पहले से अनुपस्थिति की सूचना नहीं की थी)।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने स्कूल के कार्यालय या प्रिंसिपल से बात करें। सेफअराईवल के बारे में [bit.ly/safearrivalHWDSB](http://bit.ly/safearrivalHWDSB) पर और अपने स्कूल की वेबसाइट पर अधिक संसाधन ढूंढें।

हम इस नई प्रणाली को लागू करते हुए, आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं।